

# JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Corp Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070  
Regd Off: 19<sup>th</sup> K M, Hapur Bulandshahr Road P.O.: Gulaothi, Distt.: Bulandshahr UP 245408  
Tel.: 011- 40322100; E-mail: cs\_jpifcl@jindalgroup.com  
CIN: L65923UP2012PLC051433

Ref: JPIFCL/SE/SEPT-21/583

Date: 8<sup>th</sup> September, 2021

The Manager Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI – 400 001 <u>Security Code-536773</u>	The Manager, Listing National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), MUMBAI - 400 051 <u>Code -JPOLYINVST</u>
--	---

**Subject: Compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015**

**Ref: Notice of 9<sup>th</sup> Annual General Meeting, Remote e-voting information and Book Closure**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached copies of Notice published on 07<sup>th</sup> September, 2021 in **Financial Express, All Editions (English) and Jansatta, Delhi Edition (Hindi) *inter alia*** in respect of the following:

1. Confirmation of completion of dispatch of the Annual Reports for FY 2020-21 to the Shareholders through E- Mail only *inter alia* containing Notice calling 9<sup>th</sup> AGM of the Company through VC/OVAM only.
2. Particulars of Remote e-voting for the 9<sup>th</sup> Annual General Meeting.
3. Notice of Book Closure under section 91 of the Companies Act, 2013

The said newspaper advertisements are also available on the website of the Company at <http://www.jpifcl.com/investors.html>.

Please take the above in your records  
Yours Sincerely,

For Jindal Poly Investment and Finance Co. Limited

  
Sakshie Mendiratta  
Company Secretary  
M No. A47271



**यूको बैंक UCO BANK**  
(A Govt. of India Undertaking)  
Head Office – II, Department of Information Technology  
3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata-700064

**NOTICE INVITING TENDER**

UCO Bank invites Request for Proposal (RFP) for Procurement of Smart Classroom Solution for Bank's Training Colleges. For any details, please refer to <https://www.ucobank.com>.

**Deputy General Manager**  
DIT, BPR & BTD

Date:- 07.09.2021

सम्मान आपके विचार का | Honours Your Trust

**PUBLIC NOTICE**

In general public is hereby informed that the document **"Original Sale Deed, Doc No 16282, dated 04.11.2020"**, executed by M/s. Shakti Maa Buildcon through its Prop. Mr. Nawal Gambhir & Mr. Pawan Kumar Mishra, in favour of Mr. Bhagwan Singh & Mrs. Laxmi Devi, with respect to the property bearing No. 13 & 14, Built up Third Floor, (Front Side), with roof rights, Area Measuring 80 sq. yds., out of Khra No. 402, Situated in the Area of Village Nawada & the colony known as Laxmi Vihar, Gali No. 6, Uttam Nagar New Delhi-110059, have been lost/misplaced and since then the above Documents are not traceable. Any person dealing with this document or claiming any right, title or interest on the property shall be null and void. If it is found by any person, then it is requested to inform/return on below mentioned address, within 7 days to the below Address:  
Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited,  
Branch Office : Plot No-D-11/151, 2nd Floor, Sector-8, Date:-06-September-2021  
Rohini, New Delhi-110085,

**SPA CAPITAL SERVICES LIMITED**  
Regd. Office: 25, C-Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi – 110058  
Phone: 011-4567 5500, E-mail: [listing@spacapital.com](mailto:listing@spacapital.com)  
Website: [www.spacapital.com/CapitalServices](http://www.spacapital.com/CapitalServices), CIN - L65910DL1984PLC018749

**NOTICE OF 37<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

**(A) Annual General Meeting:**  
NOTICE is hereby given that 37<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SPA Capital Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 10:00 A.M. at 25, C-Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi – 110058 to transact the business as set out in the Notice convening said AGM.

The Company has on 6<sup>th</sup> September, 2021 completed the dispatch of Annual Report containing notice of the AGM along with the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated basis) for the financial year ended March 31st, 2021 and the Reports of the Auditor and Directors, to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, through permitted mode. AGM notice and Annual Report sent through permitted mode have been displayed on the Company's website <http://www.spacapital.com/CapitalServices/> and shall also be available for inspection by Members at the registered office of the Company on all working days, except Sundays and public holidays, between 11 a.m. to 5 p.m. up to the date of AGM.

**(B) Book Closure:**  
Notice is also further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company to be held on Thursday, September 30, 2021.

**(C) E-Voting:**  
In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) all resolutions set forth in the notice, for which the Company has engaged the services of CDSL as e-voting agency. Further, the facility for voting through ballot paper shall be available at the AGM. The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. The remote e-voting period commences on Monday, September 27, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, September 29, 2021 at 5:00 p.m. (IST). During the period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Friday, September 24, 2021 may cast their vote electronically. The Members may note that remote e-voting beyond 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 29, 2021, in case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help and Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) in under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or contact company at email: [listing@spacapital.com](mailto:listing@spacapital.com) for any other clarifications.

The results of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company with prescribed time and will be made available on the website of the Company/RTA/Exchange.

For SPA Capital Services Limited  
Chairman Cum Managing Director  
Sd/- Sandeep Parwal  
DIN: 00025803

**SPANDANA SPOORTY FINANCIAL LIMITED**  
CIN:L65929TG2003PLC040648  
Regd. Office: Plot No: 31 & 32, Ramky Selatium Towers, Tower A, Ground Floor, Financial Dist., Nanakramguda, Hyderabad, Telangana-500032, Phone: +91-40-48126666, Email Id: [contact@spandanaindia.com](mailto:contact@spandanaindia.com), Website: [www.spandanaindia.com](http://www.spandanaindia.com)

**18<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF SPANDANA SPOORTY FINANCIAL LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO VISUAL MEANS**

NOTICE is hereby given that the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Spandana Spoority Financial Limited ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 28, 2021 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of the AGM without physical presence of the Members at a common venue.

2. AGM will be convened in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder, as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated January 13, 2021 and by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") dated January 15, 2021.

3. In compliance with MCA Circulars and SEBI Circular, electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report for F.Y.2020-21 have been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DP).

4. The Company has completed the dispatch of Notice along with the Annual Report on Monday, September 06, 2021 through electronic mode. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM along with Annual Report for F.Y. 2020-21 to the Members has been dispensed with the aforementioned circulars.

5. Member(s) who have not registered their email addresses with their DP or with the Company, are requested to register their valid email addresses with the DP with whom their Demat Account is maintained or with the Company by providing their full name, DP ID/Cent ID, email address and contact number, by sending an email at [secretarial@spandanaindia.com](mailto:secretarial@spandanaindia.com).

6. Members who have not registered their email addresses may temporarily get themselves registered with Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("KFinTech") by sending an email to [enward.ris@kfin-tech.com](mailto:enward.ris@kfin-tech.com) or write to the Company at [secretarial@spandanaindia.com](mailto:secretarial@spandanaindia.com) for receiving the Notice of the AGM and Annual Report for F.Y.2020-21.

7. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for F.Y.2020-21 has also been made available on the Company's website at [www.spandanaindia.com](http://www.spandanaindia.com), websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of e-voting agency i.e., KFinTech at [www.evoting.kfintech.com](http://www.evoting.kfintech.com).

8. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely (remote e-voting) by Members has been provided in the Notice of the AGM. The details are available on the website of the Company [www.spandanaindia.com](http://www.spandanaindia.com) and on the website of the e-voting agency at [www.evoting.kfintech.com](http://www.evoting.kfintech.com). The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-voting, will be able to vote at the AGM.

9. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date i.e. Tuesday, September 21, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and vote during the AGM.

In terms of the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and the Regulation 44 of the Listing Regulations, individual members holding shares in dematerialized form, as on the Cut-off Date i.e. Tuesday, September 21, 2021, may cast their vote electronically on the Resolutions as set out in the Notice of the AGM with the facility of remote e-voting through electronic services provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") - <https://services.nsdl.com> and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") - <https://web.cdsindia.com/myeasi/> home/login. All the members are informed that:

i. All the Ordinary Business and Special Business as set out in the Notice of the AGM dated August 14, 2021 may be transacted through electronic means by remote e-voting.

ii. The date of completion of dispatch of Annual Report for F.Y.2020-21 along with Notice of the AGM by electronic mode: Saturday, September 4, 2021.

iii. The date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, September 25, 2021 from 9.00 a.m. (IST).

iv. The date and time of end of remote e-voting: Monday, September 27, 2021 till 5:00 p.m. (IST).

v. The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM: Tuesday, September 21, 2021.

vi. Individual Member, who acquires shares of the Company and become a Member after dispatch of the Notice, but holds shares as on the Cut-off Date for remote e-voting i.e. September 21, 2021, should login through the sites of NSDL and CDSL to cast their votes during the remote e-voting period.

vii. Non-Individual Member, who acquires shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice, but holds shares as on the Cut-off Date for remote e-voting i.e. September 21, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or [secretarial@spandanaindia.com](mailto:secretarial@spandanaindia.com).

viii. The remote e-voting module shall be disabled by KFinTech for remote e-voting after Monday, September 27, 2021 (5:00 p.m. IST). Once the voting on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

ix. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote electronically at the AGM.

x. The manner of remote e-voting and voting at the AGM is provided in the Notice of the AGM.

xi. Information and instructions including details of user ID and password relating to remote e-voting have been sent to the Members through e-mail. The same login credentials shall be used for attending the AGM through VC / OAVM.

xii. Members holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and CDSL should login through the websites of NSDL and CDSL to cast the votes during remote e-voting period. However, for VC/OAVM meeting all the members should login at <https://meetings.kfintech.com> to participate in the meeting and also to cast vote in case they have not voted during remote e-voting period.

xiii. In case of any technical issues, related to e-voting, Members may contact the following persons:  
-Contact NSDL helpline by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call toll free no: 1800 1020 990/1800 22 44 30  
-Contact CDSL helpline by sending a request at [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or contact 022-23058738/23058542.

10. The manner and procedure for e-voting for all Members are set out in the Notice of the AGM. In case of any query pertaining to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.kfintech.com> or call on toll free no. 1800-309-4001 or send a request to Mrs. Shobha Anand, KFinTech, email id - [enward.ris@kfintech.com](mailto:enward.ris@kfintech.com) who will address the grievance connected with the facility for the voting by electronic means. Alternatively, Members may also write to Mrs. Ramesh Prasad, Company Secretary & Compliance Officer at [secretarial@spandanaindia.com](mailto:secretarial@spandanaindia.com).

By the Order of the Board of Directors  
For Spandana Spoority Financial Limited  
Sd/-  
Padmaja Gangireddy  
Managing Director  
(DIN: 00004842)

Place: Hyderabad  
Date: September 6, 2021

**NEW LIGHT APPARELS LIMITED**

Registered Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027  
Landline: (91)-11-45613885 • CIN: L74899DL1995PLC064005  
Website: <http://www.newlightapparels.com> • E-Mail: [newlightapparels@gmail.com](mailto:newlightapparels@gmail.com)

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting of New Light Apparels Limited will be held on Wednesday, 29<sup>th</sup> September, 2021 at 02:00 P.M. at the Registered Office of the Company at GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027 to transact businesses as set out in the Notice of the AGM dated 04<sup>th</sup> September, 2021 in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013.

The notice alongwith annual report has been sent to the members through Registered Post at the registered address and the same is also available on the website of the Company at [www.newlightapparels.com](http://www.newlightapparels.com) and BSE.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the said notice. The remote e-voting period will begin on Saturday, 25<sup>th</sup> September, 2021 at 9:00 A.M. and end on Tuesday, 28<sup>th</sup> September, 2021 at 5:00 P.M. The shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23<sup>rd</sup> September, 2021 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Mr. Parveen Kumar Rastogi, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for overseeing / conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent manner.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23<sup>rd</sup> September, 2021 to 29<sup>th</sup> September, 2021 for the purpose of the AGM of the Company.

By order of the Board  
For NEW LIGHT APPARELS LIMITED  
Sd/-

Place: New Delhi  
Date: 06<sup>th</sup> September, 2021  
Manisha Goswami  
Company Secretary & Compliance Officer

**IPL PROMOTERS LIMITED**

Reg. Off: A-66, Second Floor, Guru Nanak Pura Vikas Marg,  
Laxmi Nagar New Delhi East Delhi -110092 India

Website: [www.iplpromoters.in](http://www.iplpromoters.in), Email id: [promoters.ift@gmail.com](mailto:promoters.ift@gmail.com)  
CIN: L65910DL1992PLC049014

**NOTICE OF 29<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING****REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

1. Notice is hereby given that the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of IPL Promoters Limited (Company) will be held on Tuesday, 29<sup>th</sup> day of September, 2021 at 10:30 A.M. IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").

2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2021 of the Company shall be sent to all the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e., 03<sup>rd</sup> September, 2021. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company [www.iplpromoters.com](http://www.iplpromoters.com).

3. The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 25<sup>th</sup> September, 2021 (09:00 A.M.) and end on 27<sup>th</sup> September, 2021 (05:00 P.M.). During the period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21<sup>st</sup> September, 2021, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through VC/OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

4. Members, who are holding shares in physical and their e-mail addresses are not registered with the Company, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. In case of any queries/difficulties in registering the email address, members may write to the Company's RTA [enward.ris@kfintech.com](mailto:enward.ris@kfintech.com) or write to the Company at [secretarial@spandanaindia.com](mailto:secretarial@spandanaindia.com).

5. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.

6. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 21<sup>st</sup> September, 2021 to Tuesday, 28<sup>th</sup> September, 2021 (both days inclusive).

7. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-2021 will be sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

For IPL Promoters Limited  
Sd/-  
Amit Kumar Soodani  
Company Secretary and Compliance Officer  
ACS: 43711

Place: New Delhi  
Date: 06/09/2021

**Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd.**  
Registered Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road,  
Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India  
[CIN: L28100MP1979PLC049375]  
Tele No.-0761-2661336, Email : [cs@cebbbc.com](mailto:cs@cebbbc.com), Website: [www.cebbbc.com](http://www.cebbbc.com)

**NOTICE OF 41<sup>st</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 41<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Commercial Engineers & Body Builders Co Limited ("the Company") for the F.Y. 2020-21 will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 01:00 P.M. through electronic mode [video conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")] without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April 2020, Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April 2020, Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated 12<sup>th</sup> May 2020 and 15<sup>th</sup> January, 2021, to transact businesses set out in the Notice of AGM. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with.

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 25<sup>th</sup> September, 2021 to Tuesday, 28<sup>th</sup> September, 2021 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI Circular, the Company has sent the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 on 5<sup>th</sup> September 2021, through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at [www.cebbbc.com](http://www.cebbbc.com), website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of Share Transfer Agent of the Company viz. KFin Technologies Private Limited (hereinafter referred to as "KFin") at <https://evoting.karvy.com>.

Pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20<sup>th</sup> September, 2021, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 41<sup>st</sup> AGM of the Company through e-voting platform of Kfin through their portal <https://evoting.karvy.com> or NSDL, <https://eservices.nsdl.com> or CDSL, <https://web.cdsindia.com/myeasi/>. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 41<sup>st</sup> AGM.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

a. Remote e-voting through electronic means shall commence from 25<sup>th</sup> September, 2021 (9.00 a.m.) and end on 27<sup>th</sup> September, 2021 (5.00 p.m.).  
b. Cut-off date for the purpose of e-voting shall be 20<sup>th</sup> September, 2021.  
c. Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of Notice and who are eligible shareholders as on the cut-off date i.e. 20<sup>th</sup> September, 2021, may contact Mr. Shyam Kumar on (040) 6716 1568 or [shyam.kumar@kfintech.com](mailto:shyam.kumar@kfintech.com) to obtain the login id and password.  
d. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. of 27<sup>th</sup> September, 2021.

e. Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending the AGM through VC/ OAVM are provided in the Notice of the AGM.

f. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again.

g. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.

h. In case of any grievance in connection with the facility for remote e-voting, the shareholders may contact Mr. Shyam Kumar or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section on e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section on <https://evoting.karvy.com>. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode who need assistance for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

a. Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpline by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.  
b. Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpline by sending a request at [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or contact on 022-23058738 or 022-23058542-43

Members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested temporarily get themselves registered with Kfin, by clicking the link [https://ris.kfintech.com/email\\_registration](https://ris.kfintech.com/email_registration) to receive copies of the Annual Report for FY 2020-2021 along with the Notice of the 41<sup>st</sup> AGM containing the detailed procedure and instructions for remote e-voting and Instructions for participation in the AGM through VC/OAVM facility.

Please keep your most updated email id registered with the company /our Depository Participant to receive timely communications. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting of votes through remote e-voting and e-voting during the AGM.

For Commercial Engineers & Body Builders Co Limited  
Sd/-

Place: Jabalpur  
Date: 06.09.2021  
Deepesh Kedia  
Company Secretary  
ACS- 34616

**The Federal Bank Ltd.**  
Sankar Building G 14, 79-80,  
Nehru Place, Delhi-110019

**FEDERAL BANK**  
Your Perfect Banking Partner  
Regd. Office: Always, Kerala

**NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD**

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 22/09/2021 as shown below:

Branch / Venue: Sankar Building G 14, 79-80, Nehru Place, Delhi-110019			
Name	A/c. No.	Name	A/c. No.
Bhupesh Rao	13026100158856	Satinder Singh Dhir	13026100159193
Amandeep Singh	13026100158872	Karan Singh	13026100159227
Nishant Sharma	13026100159011	Vivek Kumar Jha	13026100159201
Prince Babu	13026100159029	Sheelu	13026100159250
Ranjeet Singh	13026100159037	Vipin Kumar	13026100159276
Rachel Abraham	13026100160787	Madan Lal	13026100159292
Rachel Abraham	13026100159045	Soni Srivastava	13026100159300
Ramesh Chanchal	1302640006292	Shrafat Ali	13026100159334
Ramesh Chanchal	1302660000160	Richa Srivastva	13026100159268
Ravinder Kumar	13026400006870	Lalit Kumar	13026100159417

Place: New Delhi Date: 07.09.2021 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

**SONI MEDICARE LIMITED**  
Regd. Office: 38, Kanota Bagh, J.L.N. Marg, Jaipur, (Raj.) 302004, Web: [www.sonihsospitals.com](http://www.sonihsospitals.com)  
CIN: L51397RJ1988PLC045669, Phone No.: 0141-5163700, E Mail ID: [cs@sonihsospitals.com](mailto:cs@sonihsospitals.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Soni Medicare Limited ("The Company") will be held on Thursday, September 30, 2021 at 01:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8<sup>th</sup> April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020 and 5<sup>th</sup> May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/202

**NAM SECURITIES LIMITED**  
CIN: L74899DL1994PLC350531  
Regd. Off: 213, ARUNACHAL BUILDING, 19, BARAKHAMBHA ROAD, NEW DELHI-110001  
Ph. 011-23731122, E-mail: compliance@namsecurities.in

**NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

Notice is hereby given that 27<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 30, 2021, at Kiran Farms, W-100, Western Avenue, Sankin Farms, New Delhi - 110062, to transact the business contained in the Notice of the said AGM. In terms of Sections 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice & Annual Report for the year 2020-21 have been sent through electronic mode by the Company to those shareholders who have registered their email-ids with the Depositories of the company and the same is also made available on the Company's website at www.namsecurities.in.

Notice is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013 that Register of Members & Share Transfer Books shall remain closed from 24.09.2021 to 30.09.2021 (both days inclusive) in view of AGM of the Company. Notice is also given that the Company is providing e-voting facility to its members.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and regulation 44 of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of NSDL as the Authorized Agency. The remote e-voting facility shall commence on September 27, 2021 at 10.00 A.M.(IST) and ends on September 29, 2021 at 5.00 P.M. (IST).

The e-voting system shall be disabled thereafter. The Record date for the purpose of e-voting is September 23, 2021.

Members may use e-voting facility during e-voting period by using UserID and Password which will be intimated separately to their registered email ID/Address. For any clarifications on e-voting, members may contact RTA, Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at 3<sup>rd</sup> Floor, 99 Mandgiri, behind local shopping center, New Delhi-110062 Tel:-011-26911281/83.

For: Nam Securities Limited  
Sd/-  
Place: New Delhi (Divya Bishit)  
Date: 06.09.2021 Company Secretary & Compliance Officer

**सदस्यों हेतु सूचना**

एवद्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. एक्सचेंज डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 2013 के वार्षिक वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र ("प्रसूचित") (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा व्यापार के लेन-देन करने के लिए जारी किये गए हैं, जैसा कि एजीएम नोटिस में वर्णित है।

2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सदस्यों को भेजी जाएगी। साथ ही वे दस्तावेज सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों और विचारों को एजीएम से शामिल होने के निर्देश, रिमोट-ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ लें।

**सदस्यों हेतु सूचना**

एवद्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. एक्सचेंज डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 2013 के वार्षिक वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र ("प्रसूचित") (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा व्यापार के लेन-देन करने के लिए जारी किये गए हैं, जैसा कि एजीएम नोटिस में वर्णित है।

2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सदस्यों को भेजी जाएगी। साथ ही वे दस्तावेज सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों और विचारों को एजीएम से शामिल होने के निर्देश, रिमोट-ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ लें।

**बोर्ड के आदेशानुसार एक्सचेंज डीलर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड**  
CIN: U51909HR1901PLC008636  
पंजीकरण कार्यालय: के लिए 18/4, मधुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 007  
फोन: 0129-2225216  
ई-मेल: secretary@esorts.co.in  
स्थान: फरीदाबाद

**SPA CAPITAL SERVICES LIMITED**  
Regd. Office: 25, C-Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110058  
Phone: 011-4567 5500, E-mail: listing@spacapital.com  
Website: http://www.spacapital.com/CapitalServices/SPAC - 1659100DL1994PLC018749

**NOTICE OF 37<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

(A) Annual General Meeting:  
Notice is hereby given that 37<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SPA Capital Services Limited ("Company") is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 10:00 A.M. at 25, C-Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110058 to transact the business as set out in the Notice convening said AGM.

The Company has on 8<sup>th</sup> September, 2021 completed the dispatch of Annual Report containing notice of the AGM along with the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated basis) for the financial year ended March 31st, 2021 and the Reports of the Auditor and Directors, to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, through permitted mode. AGM notice and Annual Report sent through permitted mode have been displayed on the Company's website http://www.spacapital.com/CapitalServices/ and shall also be available for inspection by Members at the registered office of the Company on all working days, except Sundays and public holidays, between 11a.m. to 1 p.m. up to the date of AGM.

(B) Book Closures:  
Notice is also further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company to be held on Thursday, September 30, 2021.

(C) E-Voting:  
In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) all resolutions set forth in the notice, for which the Company has engaged the services of CDSL as e-voting agency. Further, the facility for voting through ballot paper shall be available at the AGM. The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. The remote e-voting period commences on Monday, September 27, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, September 29, 2021 at 5.00 p.m. (IST). During the period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Friday, September 24, 2021 may cast their vote electronically. The Members may note that remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, September 29, 2021. In case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help and Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact company at email: listing@spacapital.com for any other clarifications.

The results of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company with in prescribed time and will be made available on the website of the Company/RTA/Exchange.

For SPA Capital Services Limited  
Sandeep Parwal  
Chairman Cum Managing Director  
DIN: 00025803

**स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
CIN: L74899HR1994PLC076773  
पंजीकृत कार्यालय: 402, 4 वलीर सॉलिटियर ब्लॉक, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र - 122002  
वेबसाइट: www.stelarcapital.com  
मुंबई, 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 02:00 बजे होने वाली 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एवद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्राधान्यों, कॉर्पोरेट गवर्नंस द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 ("प्रसूचित परिपत्र") और भारतीय प्रतियोगिता एवं निमित्त बोर्ड (सीडी) द्वारा जारी किये गए परिपत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार प्रेषित, 2021 को कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र ("प्रसूचित") (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा व्यापार के लेन-देन करने के लिए जारी किये गए हैं, जैसा कि एजीएम नोटिस में वर्णित है।

2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सदस्यों को भेजी जाएगी। साथ ही वे दस्तावेज सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों और विचारों को एजीएम से शामिल होने के निर्देश, रिमोट-ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ लें।

**कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड**  
पंजी. कार्यालय: 19वां फ्लोर, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र सं. 402, वलीर सॉलिटियर ब्लॉक, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र - 122002  
प्रधान कार्यालय: 402, वलीर सॉलिटियर ब्लॉक, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र - 122002  
फोन: 011-40322100, ई-मेल: cs\_cfh@jindalgroup.com, वेबसाइट: www.consofinvest.com

**35वीं वार्षिक सामान्य बैठक और बंदी बंदी की सूचना**

एवद्वारा सूचना दी जाती है कि कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को अपराह्न 2:30 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन बंदी-वोटिंग सुविधा के माध्यम से करने हेतु, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और तदधीन विहित नियमों के अनुसार, 2013 के वार्षिक वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("सभी सूचीबद्ध" कहे गए हैं) तथा सभी सूचीबद्ध विवरण दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ("सभी सूचीबद्ध" कहे गए हैं) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए प्रसूचित की गयी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से जुड़ने के लिए अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित केंद्र इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ई-मेल पास कंपनी अथवा सीडीएसएल/एएसडीएसएल ("डिजिटल/डिजिटल") के पास पंजीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.consofinvest.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों से अपना ई-मेल पास पंजीकृत नहीं कराया है और परिणामतः एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग सुविधा सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकें हैं, वे एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्झैक्शन एजेंट, लिखनवाटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ई-मेल अनुदेश delhi@linkintime.co.in अथवा cs\_cfh@jindalgroup.com पर अनुदेश पत्र की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रेषित कर साह ई-मेल पास, मोबाइल नंबर, पैन की शं-सत्यापित प्रतिलिपि तथा इलेक्ट्रॉनिक फोटो के माध्यम से क्लब्ड मार्टर प्रतिलिपि और नैतिक फोटो के माध्यम से शेयर प्रमाणपत्र की ओपी के साथ भेजकर ई-मेल पास और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवा सकें हैं।

कम्पनी ने एजीएम इलेक्ट्रॉनिक विधि से संचालित करने और ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करने के लिए लिखनवाटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं अडिटेड वित्तीय विवरण के तौर पर अनुचित नहीं करे हैं। रिमोट ई-वोटिंग अधिवि विवरण, 28 सितंबर, 2021 को पूर्ण, 9:00 बजे से आरंभ होगी तथा मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को अप. 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के नैतिक या अनैतिक रूप में ग्राह्य श्रेयधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरांत लिखनवाटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा अर्थात् 28 सितंबर, 2021 को अप. 5:00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एजीएम की सुविधा एजीएम के दौरान भी उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एजीएम में उपस्थित हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। ऐसे सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम में एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए सदस्यों की प्रशासनिक विभाग हेतु कट-ऑफ तिथि बुधवार, 28 सितंबर, 2021 है। कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेरों का धारक है, enotices@linkintime.co.in को अनुदेश भेज कर अपना फोन: 022-4918 6000 पर सम्पर्क कर अपना वोट डालने के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना में लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग का उपयोग करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया वर्णित की गई है।

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह है, तो वे https://investor.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीकॉन्टैक्ट आउटबॉक्स ("एकपृष्ठक") तथा इमरजेंसी ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल भेजें अथवा फोन: 022-4918 6000 पर सम्पर्क करें।

एवद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित लागू नियमों और भारतीय प्रतियोगिता एवं निमित्त बोर्ड (सूचीकरण अधिनियम और प्रकटीकरण अधिनियम) विनियमवली के विनियम 42 के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण बहियान नूहस्यतिर, 23 सितंबर, 2021 से शुरुआत, 29 सितंबर, 2021 तक, दोनों तिथियां सहित, एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेगी।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
वास्तु कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड  
हस्ता./-  
साहमी दीर्घकाल  
स्थान: मुंबई दिल्ली  
तिथि: 6 सितंबर, 2021 कम्पनी सचिव और अनुपाल अधिकारी

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**कृते स्टेलर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
अशोक यादव  
कम्पनी सचिव

**एसएमएस पॉलिसर्स लिमिटेड**  
(पूर्व में: साई मॉड ऑडी रिस्क लिमिटेड)  
सीआईएन: L34300DL1985PLC020510  
पंजीकृत कार्यालय: सी-582, सरस्वती विहार, वीएमएफ, दिल्ली - 110034  
दूरभाष: 011-27017987, फैक्स: 011-27017987  
ईमेल: polymersams@gmail.com, वेबसाइट: www.amspolymers.com

**वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा रिमोट-ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना**

एवद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना दिनांक 2 सितंबर, 2021 में प्रेषित प्रभाव के लेन-देन के लिए कम्पनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर, 2021 को 9:00 बजे प्रातः पंजीकृत कार्यालय सी-582, सरस्वती विहार, वीएमएफ, दिल्ली-110034 पर आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना तथा रिपोर्ट 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों के पास 6 सितंबर, 2021 को अनुरूप माध्यम से भेजी दी गई है।

संघी (सूचीकरण अधिनियम एवं प्रकटीकरण अधिनियम) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके तहत निर्मित प्रावधानों के अनुसार, एवद्वारा सूचना कि वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तिकाएं बुधवार, 24 सितंबर, 2021 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2021 तक बंद रहेंगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, 2013 के वार्षिक वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र ("प्रसूचित") (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा व्यापार के लेन-देन करने के लिए जारी किये गए हैं, जैसा कि एजीएम नोटिस में वर्णित है।

2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सदस्यों को भेजी जाएगी। साथ ही वे दस्तावेज सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों और विचारों को एजीएम से शामिल होने के निर्देश, रिमोट-ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ लें।

**कृते एसएमएस पॉलिसर्स लिमिटेड**  
हस्ता./-  
साहमी दीर्घकाल  
स्थान: मुंबई दिल्ली  
तिथि: 6 सितंबर, 2021 कम्पनी सचिव

**जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**  
सीआईएन: L65923UP2012PLC05433  
पंजी. कार्यालय: 19वां फ्लोर, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र सं. 402, वलीर सॉलिटियर ब्लॉक, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र - 122002  
प्रधान कार्यालय: 402, वलीर सॉलिटियर ब्लॉक, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र - 122002  
फोन: 011-40322100, ई-मेल: cs\_jphoto@jindalgroup.com, वेबसाइट: www.jindalphoto.com

**वार्षिक सामान्य बैठक और बंदी बंदी की सूचना**

एवद्वारा सूचना दी जाती है कि जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को अपराह्न 11:30 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन बंदी-वोटिंग सुविधा के माध्यम से करने हेतु, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और तदधीन विहित नियमों के अनुसार, 2013 के वार्षिक वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("सभी सूचीबद्ध" कहे गए हैं) तथा सभी सूचीबद्ध विवरण दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ("सभी सूचीबद्ध" कहे गए हैं) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए प्रसूचित की गयी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से जुड़ने के लिए अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित केंद्र इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ई-मेल पास कंपनी अथवा सीडीएसएल/एएसडीएसएल ("डिजिटल/डिजिटल") के पास पंजीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.jindalphoto.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों से अपना ई-मेल पास पंजीकृत नहीं कराया है और परिणामतः एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग सुविधा सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकें हैं, वे एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्झैक्शन एजेंट, लिखनवाटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ई-मेल अनुदेश delhi@linkintime.co.in अथवा cs\_cfh@jindalgroup.com पर अनुदेश पत्र की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रेषित कर साह ई-मेल पास, मोबाइल नंबर, पैन की शं-सत्यापित प्रतिलिपि तथा इलेक्ट्रॉनिक फोटो के माध्यम से क्लब्ड मार्टर प्रतिलिपि और नैतिक फोटो के माध्यम से शेयर प्रमाणपत्र की ओपी के साथ भेजकर ई-मेल पास और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवा सकें हैं।

कम्पनी ने एजीएम इलेक्ट्रॉनिक विधि से संचालित करने और ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करने के लिए लिखनवाटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं अडिटेड वित्तीय विवरण के तौर पर अनुचित नहीं करे हैं। रिमोट ई-वोटिंग अधिवि विवरण, 28 सितंबर, 2021 को पूर्ण, 9:00 बजे से आरंभ होगी तथा मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को अप. 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के नैतिक या अनैतिक रूप में ग्राह्य श्रेयधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरांत लिखनवाटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा अर्थात् 28 सितंबर, 2021 को अप. 5:00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एजीएम में उपस्थित हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। ऐसे सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम में एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए सदस्यों की प्रशासनिक विभाग हेतु कट-ऑफ तिथि बुधवार, 28 सितंबर, 2021 है। कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेरों का धारक है, evoting@kfinetech.com को अनुदेश भेज कर अपना फोन: 1800-3454-001 पर सम्पर्क कर अपना वोट डालने के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना में लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग का उपयोग करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया वर्णित की गई है।

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह है, तो वे https://investor.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीकॉन्टैक्ट आउटबॉक्स ("एकपृष्ठक") तथा इमरजेंसी ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा evoting@kfinetech.com पर ई-मेल भेजें अथवा फोन: 022-4918 6000 पर सम्पर्क करें।

एवद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित लागू नियमों और भारतीय प्रतियोगिता एवं निमित्त बोर्ड (सूचीकरण अधिनियम और प्रकटीकरण अधिनियम) विनियमवली के विनियम 42 के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण बहियान नूहस्यतिर, 23 सितंबर, 2021 से शुरुआत, 29 सितंबर, 2021 तक, दोनों तिथियां सहित, एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेगी।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
वास्तु कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड  
हस्ता./-  
साहमी दीर्घकाल  
स्थान: मुंबई दिल्ली  
तिथि: 6 सितंबर, 2021 कम्पनी सचिव और अनुपाल अधिकारी

**कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड**  
सीआईएन: L33200UP1993PLC015474  
पंजी. कार्यालय: 19वां फ्लोर, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र सं. 402, वलीर सॉलिटियर ब्लॉक, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र - 122002  
प्रधान कार्यालय: 402, वलीर सॉलिटियर ब्लॉक, एन.डी.सी., मुंबई, महाराष्ट्र - 122002  
फोन: 011-40322100, ई-मेल: cs\_cfh@jindalgroup.com, वेबसाइट: www.consofinvest.com

**35वीं वार्षिक सामान्य बैठक और बंदी बंदी की सूचना**

एवद्वारा सूचना दी जाती है कि कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को अपराह्न 2:30 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन बंदी-वोटिंग सुविधा के माध्यम से करने हेतु, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और तदधीन विहित नियमों के अनुसार, 2013 के वार्षिक वित्तीय विवरण (बीएस/अन्य ऑडिटेड वित्तीय विवरण) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("सभी सूचीबद्ध" कहे गए हैं) तथा सभी सूचीबद्ध विवरण दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ("सभी सूचीबद्ध" कहे गए हैं) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए प्रसूचित की गयी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से जुड़ने के लिए अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित केंद्र इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ई-मेल पास कंपनी अथवा सीडीएसएल/एएसडीएसएल ("डिजिटल/डिजिटल") के पास पंजीबद्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.jindalphoto.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों से अपना ई-मेल पास पंजीकृत नहीं कराया है और परिणामतः एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग सुविधा सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकें हैं, वे एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्झैक्शन एजेंट, लिखनवाटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ई-मेल अनुदेश delhi@linkintime.co.in अथवा cs\_jphoto@jindalgroup.com पर अनुदेश पत्र की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रेषित कर साह ई-मेल पास, मोबाइल नंबर, पैन की शं-सत्यापित प्रतिलिपि तथा इलेक्ट्रॉनिक फोटो के माध्यम से क्लब्ड मार्टर प्रतिलिपि और नैतिक फोटो के माध्यम से शेयर प्रमाणपत्र की ओपी के साथ भेजकर ई-मेल पास और मोबाइल नंबर पंजीकृत करवा सकें हैं।

कम्पनी ने एजीएम इलेक्ट्रॉनिक विधि से संच